



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102024-257830
CG-DL-E-14102024-257830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2024/आश्विन 18, 1946

No. 576]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2024/ASVINA 18, 1946

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2024

सा. का. नि. 632(अ).— दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे केन्द्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप) धारा-1) और) 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए, जैसाकि उक्त धारा की उपधारा 1) द्वारा यथा अपेक्षित है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां प्रकाशित होने और उसे जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा ;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, श्री राम चरण मीणा, अवर सचिव, भारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नंबर 11ए, 5वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 को पत्र द्वारा या ईमेल द्वारा rcmeena.79@gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

उपरोक्त मसौदा नियमों के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर, केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार) -1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के, नियम) 15) के, उप-नियम) 1) में, खंड) त (के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत :स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(थ) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20 अगस्त, 2024 की अधिसूचना संख्या फा.सं. 16017/6/2022 आईएनएस.। में यथा विनिर्दिष्ट बीमा क्षेत्र में अवसंरचना और सेवाओं के लिए सुगम्यता मानक और दिशा-निर्देश”

[फा.सं. बी-16007/7/2024-सिपडा]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(असा.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और पिछली बार दिनांक 02 जुलाई, 2024 की सा.का.नि. 361 (असा.) के जरिए संशोधित किया गया था।

Ministry of Social Justice and Empowerment

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities Divyangjan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2024.

G.S.R. 632(E).— The following draft of certain rules to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ram Charan Meena Under Secretary to the Government of India, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Room No 11 A, 5th Floor, Pandit Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, 110003 or by email at rcmeena.79@gov.in

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and extent.- (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule (15), in sub-rule (1), after clause (p), the following clause shall be inserted, namely:-

“(q) Accessibility Standards and Guidelines for infrastructure and services in Insurance Sector as specified in the notification of the Department of Financial Service, Ministry of Finance, Government of India, *vide* notification number F. No. 16017/6/2022 Ins.I, dated the 20th August 2024”

[F.No B-16007/7/2024-SIPDA]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 361(E) dated the 2nd July, 2024.